



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक**

सामिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

*Published by Authority*

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941—सितम्बर 17, 2019  
*Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941—September 17, 2019*

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 13, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/10345** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Malpura has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Malpura. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,  
Ujjwal Rathore,  
Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका मालपुरा जिला टॉक (राज.)

प्रारूप-क

वार्ड संख्या	जनसंख्या	वार्डों का विवरण
1	790	पालिका की उत्तर पश्चिमी सीमा दूरू रोड पर श्री रामधन जाट के मकान से बाये हाथ के मकानात लेते हुए सीधे पश्चिम दिशा को श्री नवल किशोर दाधिच के मकान पर जाकर यहां से बाये हाथ को मुड़कर सीधे दक्षिण दिशा में रोड पर चलते हुए जैन भवन से सीधी छः चौकिया पहुचकर अजमेर रोड चढ़कर वापस पूर्व दिशा को रोड पर चलते हुए 5 दुकाने को लेते हुए धोबी नाडे की पाल पर होकर आगे बोटू खटीक के मकान पर जाकर यहां से दक्षिण दिशा को मुड़कर रोड रोड इरफान नीलगर की दुकान पर जाकर टोडा रोड चढ़कर यहां से उत्तर दिशा को मुड़कर बाये हाथ के समस्त मकानात लेते हुए रोड रोड चलकर अजमेर जयपुर रोड तिराहा क्रोस कर दूरू रोड पर प्रारम्भ के स्थान पर पहुचेगी।
2	680	श्रवण लोहे वाले की दुकान से पश्चिम की और चलकर वार्ड नं. 1 की सीमा के समानान्तर चलते हुए पांच दुकानों के पीछे से अजमेर रोड चढ़कर (बाये साईड के समस्त मकान लेते हुए) गुर्जरों की धर्मशाला को पहुचकर यहां से वापस दक्षिण पूर्व को झालरा तालाब

		की पाल पर चलते हुए झालगा स्कूल की साईड को छोड़ते हुए नवी मास्टर के मकान पर पहुंचकर नवी मास्टर के आगे गोवर्धन सिन्धी के मकान से उत्तर की ओर गली में धुमकर देशवालियों के मस्जिद के चौक में पहुंचकर मस्जिद के साईड के मकानात को लेते हुए रणधीर सिंह गवारिया के मकान पर पहुंचकर से यहां से दक्षिण में पहुंचकर यहां से नजरूद्धीन के मकान व दुकान को लेते हुए सीधे जयपुर केकड़ी रोड पर पहुंचकर यहां से वापस उत्तर में धुमकर रोड रोड प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
3	690	नसरूद्दीन की दुकान से रोड रोड चलकर कृष्णा टाकीज पर पहुंचकर पश्चिम दिशा की ओर केकड़ी रोड चलकर सीताराम बगीची से कॉलेज रोड पर रोड रोड चलकर दाये साईड के सभी मकानात को लेते हुए पालिका की पश्चिमी सीमा के अन्तिम छोर पर पहुंचकर रास्ते रास्ते पालिका सीमा पर उत्तर की ओर चलकर अजमेर रोड पालिका सीमा पर पहुंचकर वार्ड नं. 2 की सीमा पर चलकर प्रारम्भिक स्थान पर पहुंचेगी।
4	715	धन्ना (बहरया) माली के मकान से रोड रोड चलकर सीधे इश्हाक जी की सीमेन्ट की दुकान पर पहुंचकर हरिजन कॉलोनी में रोड से पश्चिम की ओर चलकर दादाबाड़ी को छोड़ते हुए दादाबाड़ी के पश्चिमी उत्तरी कोने से सीधे केकड़ी रोड से माली बस्ती कंजर बस्ती, फकीर बस्ती को लेते हुए आरएसईबी के क्वाटर के पूर्वी उत्तरी कोने पर दाये और के सभी मकानात को लेते हुए इदगाह पर पहुंचकर इदगाह से उत्तर की ओर पालिका सीमा पर मीर कॉलोनी व अन्य दाई और के सभी मकानात को लेते हुए वार्ड नं. 3 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भिक स्थान पर पहुंचेगी।
5	650	देशबन्धू के मकान से टोडा रोड चलकर इश्हाक गिरदावर के मकान पर पहुंचकर पश्चिम की ओर उत्तरकर खारे कुए के रास्ते पर दाई और के मकानात को लेते हुए मुसानी नाड़ी पर पहुंचकर वहां से चलकर गादरिया की मस्जिद पर पहुंचकर गादरिया से दादाबाड़ी को लेते हुए दाई और में हरिजन बस्ती को लेते हुए वार्ड नं. 4 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भिक स्थान पर पहुंचेगी।
6	715	सुबराती मास्टर के मकान से टोडा रोड रोड चलकर 57 मील पर पहुंचकर पालिका सीमा दक्षिणी पश्चिमी और चलकर पालिका सीमा पर पहुंचेगी एवं यहां से पालिका सीमा सीमा पश्चिम दिशा की ओर चलकर दाई और के सभी मकानात किंदवई कॉलोनी अन्य सभी मकानात को लेते हुए झूम के कुए से खारे कुए पर पहुंचकर यहां से वार्ड नं. 5 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भिक स्थान पर पहुंचेगी।
7	730	श्री भईया ड्राईवर से चलकर छोटे मोहल्ले में वार्ड नं. 7 की सीमा

		सीमा चलकर सीधे अब्दुल्ला तहसीलदार के साईड के मकान को लेते हुए अब्दुल सलाम पूर्व पार्षद के मकानात को लेते हुए टोडा रोड रोड पर चढ़कर सीधे उत्तर की ओर रोड रोड चलकर दुर्गा जी की आरामशीन पर पहुंचकर पूर्व की ओर घुमकर कबाडियों के चौक को लेते हुए मुन्ना मास्टर के मकान पर पहुंचकर कुम्हारो की गली की ओर शराफत अली की ओर के मकानात को लेते हुए अख्तर मास्टर के मकान की ओर के मकान को लेते हुए प्रारम्भ स्थान पर पहुंचेगी।
8	680	काजी सा. की हवेली से चलकर माणक चौक की ओर चलकर निलगरों की मस्जिद पर पहुंचकर तेरापंथी मंदिर को लेते हुए बाई और के मकानात को लेते हुए यूनूस कारीगर के मकान से सादात मस्जिद के रास्ते पर चलकर अबूबकर कारीगर के मकान से पूर्व की ओर चलकर रईस पीटीआई के मकान से पूर्व और चलकर बाई और के मकानात को लेते हुए प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
9	735	मांगीलाल जी ग्राम सेवक के मकान से दक्षिण दिशा की ओर टोडा रोड चलकर शर्मा आरामशीन को लेते हुए पूर्व दिशा घुमकर वार्ड नं. 9 की सीमा सीमा चलकर ताहिर के मकान पर जाकर यहां से उत्तर दिशा की घुमकर ड्रिस्टीक बोड की हवेली की ओर के मकानों से लेते हुए पूर्व दिशा की ओर तेरापंथी मंदिर की छोड़ते हुए मस्जिद के मकान पर पहुंचेगी यहां से उत्तर की ओर घुमकर छोटी मस्जिद की दुकानों पर पहुंचकर पुलिस चौकी को लेते हुए जाट की हवेली पर पहुंचकर इसके सामने उत्तर दिशा को नसरुद्दीन फकीर के मकान को लेते हुए पश्चिम की ओर चलकर प्रारम्भिक स्थान पर पहुंचेगी।
10	615	पीएसपी के पास माधू माली के मकान से टोडा रोड चलकर राम सहाय बोरा की टुकान मकान पर पहुंचकर यहां से पूर्व से चलकर दाई और के मकानात को लेते हुए पारीक पान भण्डार पर पहुंचकर कटले में घुसकर हजानी की गली में घुसकर दाई और के मकानात को लेते हुए नूर मोहम्मद को लेते हुए वार्ड नं. 10 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
11	790	जगराम गवारिया के मकान से दक्षिण दिशा में टोडा रोड चलकर रेती मोहल्ला सड़क की पुलिया से पूर्व दिशा को वार्ड नं. 12 की सीमा के सहारे सहारे कैलाश ब्राह्मण, मिलापचन्द कागला के सामने रास्ता पार कर जुम्मा पटवा बिशन सिन्धी के मकान को लेते हुए आगे धासी पटवा के मकान के पश्चिमी रास्ते से सीधे बाजार में चलकर यहां से उत्तर दिशा को अजीम बेण्ड वाले के मकान पर पहुंचकर यहां से उत्तर दिशा को नवीन मण्डी बाजार में

		सीधे सुभाश सर्किल पर पहुंचकर यहां से पश्चिम दिशा में महावीर मार्ग पर चलते हुए आरम्भ के यहां पर पहुंचेगी।
12	630	महेन्द्र शर्मा (मेडिकल स्टोर) से प्रारम्भ होकर बस स्टेण्ड के अन्दर मनोहर जी के मकानात को लेते हुए लायन्स क्लब प्याउ की साईड छोड़ते हुए दामोदर शर्मा की दुकान पर पहुंचकर जनता कॉलोनी को लेते हुए विनोद गुप्ता के साईड के मकानों को लेते हुए सीधे दशरथ जी मुंशी के मकान पर पहुंचकर संजय मार्केट में चलकर रामलाल की दुकान के साईड के मकानात को छोड़ते हुए सीधे जयपुर रोड पर पहुंचकर पश्चिम की ओर घुमकर इस्माईल लुहार की दुकान पर पहुंचकर बाई और के मकानात को लेते हुए प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
13	680	रामदेव गुर्जर की दुकानों को लेकर महावीर मार्ग में बाई और के मकानात को लेते हुए रातमा विद्यालय छात्रा को लेते हुए उत्तर में नई मण्डी में चलकर बाई और के मकानात को लेते हुए व्यास पेट्रोल पम्प पर पहुंचेगी वहां से सीधे सदरपुरा रोड पर चलकर बाई और के मकानात को लेते हुए नगरपालिका सीमा सीमा चलकर दूदू रोड पहुंचकर दुग्ध डेयरी को लेते हुए वार्ड नं. 14 की सीमा सीमा चलकर संजय मार्केट में रामलाल वर्मा के साईड के मकानात को लेते हुए महावीर जी पटवारी के साईड के मकानात को लेते हुए बस स्टेण्ड के अन्दर चलकर प्रारम्भ स्थान पर पहुंचेगी।
14	700	भैंवर जी चान्दसेन के मकान नई मण्डी से पूर्व की ओर औम जी काबरा के मकान को लेते हुए रामचन्द्र गुर्जर के मकान से गोरवपथ पर पहुंचकर तालाब की पाल पाल बाई और की मकानात सुभाश कॉलोनी को लेते हुए दुधारी मस्जिद पर पहुंचकर विजयवर्गीय धर्मशाला को लेते हुए महेश सेवा सदन के सामने की रोड रोड चलकर जयपुर रोड पहुंचकर सीधे हॉयर सैकेण्डरी के कोने पर पहुंचकर सीधी सिंधी वालों की कॉलोनी को लेते हुए नगरपालिका सीमा सीमा चलकर तहसीलदार जी क्वार्टर पर पहुंचकर रोड रोड चलकर व्यास सर्किल होते हुए नई मण्डी चलकर सीधे प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
15	640	दुर्गालाल रैगर के मकान से उत्तर में चलकर जयपुर रोड पर पहुंचेगी जिसमें बाई साईड के सभी मकान सम्मिलित होंगे जयपुर रोड क्रोस कर पालिका सीमा सीमा चलकर पीनणी रोड पर नर्सरी के पीछे वाले कोने पर पहुंचकर दक्षिण दिशा की ओर घुमकर जयपुर रोड पर पहुंचेगी जयपुर रोड से सावरकर सर्किल पहुंचकर अस्पताल रोड पर चलकर प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
16	690	श्योजी रैगर के मकान को छोड़कर वार्ड नं. 33 की सीमा चलकर

		नगरपालिका की सीमा पर पहुचकर उत्तर दिशा की ओर चलकर सीमा सीमा फलोदी बालाजी पहुचकर बालाजी के सामने चलकर शास्त्री नगर में अन्दर घुसकर भैंवरलाल शर्मा के मकान के पीछे वाली रोड पर अन्दर शास्त्री नगर में सीधे अस्पताल रोड की ओर चलकर आखरी में दुर्गालाल की साईड के समस्त मकानात को लेते हुए अस्पताल रोड पर चढ़कर गौरव पथ पर पूर्व की ओर चलकर प्रारम्भिक स्थान पर पहुचेगी।
17	690	श्री ओम जी सोनी की दुकान से नवीन मण्डी चलकर दुल्हाना पान वाले की दुकान पहुचकर सीधे रास्ते रास्ते चलकर इमामबाड़ा को लेते हुए सीधे अ. रहमान फकीर के मकान को लेते हुए तालाब की पाल पर पहुचकर उत्तर की ओर पाल पाल चलकर रैगर मो. गुजर मो. को लेते हुए गौरव पथ पहुचकर बच्छराज गुजर के मकान के ओर घुमकर देव जी मंदिर लेते हुए वार्ड नं. 16 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भ स्थान पहुचेगी।
18	650	मोहन तेली की दुकान से दक्षिण की ओर चलकर अस्पताल जामा मस्जिद को लेते हुए सीधे सैन समाज का मंदिर व गौतम धर्मशाला को लेते हुए तालाब की पाल पर नीचे उत्तर दिशा को गणेश जी के मंदिर को लेते हुए पाल पाल चलकर शाहबुद्दीन पटवा के मकान पर पहुचकर वार्ड नं. 17 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भ के स्थान पर पहुचेगी।
19	690	गांधी पार्क के कोने से चलकर नोरत टेलर मूल जी टाक के मकान के साईड के मकानों को लेते हुए सीधे ज्योति मार्केट में चलकर कटले घुसकर बाजार बाजार चलकर आजाद चौक में पहुचकर राम जी पारीक के साईड के मकान को लेते हुए गुलाब जी मारू से पूर्व की साईड को छोड़ते हुए दुर्गालाल नामा के मकान पर पहुचकर नामा के मकान को छोड़ते हुए धोबी मो. में घुसकर धोबियाँ ढाल से नीचे उत्तरकर रोड रोड चलकर पाण्डेता के मकानों को लेते हुए गांधी पार्क के प्रारम्भ स्थान पर पहुचेगी।
20	640	व्यास हवेली से चलकर बाजार बाजार पूर्व दिशा की ओर चलकर बाई साईड के मकानात को लेते हुए पुरानी तहसील दरवाजे में घुसकर गोवला घाट तेजाजी के मंदिर को लेते हुए तालाब की पाल पाल चलकर रामप्रसाद मोर्ची के मकानात को लेते हुए रास्ता क्रोस कर गोपाल बाबाजी के मकान को लेते हुए सीधे चलकर रामकिशन धोबी साईड के मकानों को लेते हुए वार्ड नं. 19 की सीमा पर पहुचकर 19 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भ के स्थान पर पहुचेगी।
21	815	ट्रक स्टेप्ड पर श्री रामकरण गुर्जर के मकान से बाजार तरफ वार्ड नं. 11 की सीमा के बराबर चलते हुए प्रहलाद हलवाई की दुकान से

		उत्तर की तरफ व्यास मार्ग पर चलकर सीधे कन्हैयालाल खटीक की दुकान पर पहुंचकर यहां से पश्चिम दिशा में मुड़कर गुलफाम कसाई की दुकान के सामने रास्ता पार कर रामकरण बैरवा के मकान व रामदेव जी के मंदिर को लेते हुए रेती मोहल्ला सड़क से सीधे गोकुल बलाई के मकान पर जाकर पुलिया के पास दक्षिण दिशा को घूमकर ट्रक स्टेण्ड पर आरम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
22	630	टीकम चाय वाले की दुकान माणक चौक बाजार से बापू बाजार आजाद चौक होते हुए सावलदास सिन्धी की दुकान पर पहुंचकर दक्षिण दिशा में घुमकर हजानी जी की गली से सीधे सड़क पार कर हकीम नीलगर के मकान को लेकर दक्षिण दिशा में मुड़कर ताराचन्द सिन्धी के मकान को लेते हुए बजरंग बलाई के मकान पर पहुंचकर यहां से पूर्व दिशा को घुमकर लाला जी आगरा वाले विनय टाकीज के कोने पर रास्ता पार कर चांद जी गणवरिया के मकान से उत्तर दिशा को घुमकर माणक चौक बाजार के रास्ते पर आरम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
23	630	माणक चौक में शाह जी महाराज की दुकान से चलकर दक्षिण की ओर चलकर सत्यप्रकाश ठेण्या के मकान को लेते हुए हथाई के रास्ते चलकर बाई और के मकानों को लेते हुए गुल मोहम्मद हाजी के मकान से पूर्व की ओर से सफेद सड़क पर रामपाल नाई की साईड के मकानों को लेते हुए सीधे पुरानी जामा मस्जिद पर पहुंचकर पश्चिम की ओर चलकर डिग्नी वालों के कटले के बाई और के मकानात को लेते हुए प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
24	690	हथाई के चबूतरे से इस्लाम की दुकान से दक्षिण की ओर बाई साईड में अलादीन भणभुज्या के मकान को लेकर पूर्व की ओर घुमकर बाई साईड में आसीफ अली वकील के मकान को लेते हुए मोरियो के रास्ते में चलते हुए नाड़ी में अख्तर मास्टर के मकान पर पहुंचेगी यहां से देवजी की ढाल पर चढ़कर बाई और के मकानों को लेते हुए हाटडियो में मस्जिद की कोटड़ी को लेते हुए इकराम मास्टर के मकान को लेते हुए वापस प्रारम्भ स्थान पर पहुंचेगी।
25	670	टोडा रोड मो. मुंशि के मकान से उत्तर दिशा से हथाई की तरफ चलते हुए अतिक हसन की गुवाड़ी को लेते हुए मोती जी जैन की दुकान को लेते हुए दुकान से छोटे मोहल्ले में घुसकर अ. मन्नान मोलाना के मकान को लेते हुए इरफान जी की गुवाड़ी को लेते हुए छोटी मस्जिद के पास मुश्ताक हाजी की गुवाड़ी को लेते हुए टोडा रोड अलादीन के मकान को लेते हुए दक्षिण की ओर चलकर नासरिया मदरसा को लेते हुए प्रारम्भिक स्थान पर पहुंचेगी।
26	715	अययूब मास्टर के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलकर बाई

		साईड के मकान को लेते हुए टोडा रोड पर रियाज मास्टर के मकान पर पहुंचकर टोडा रोड से पूर्व की ओर घुमकर बाई और के मकान अख्तर डिप्टी के मकान से आगे टोडा रोड पर चलकर पुलिया के पास उत्तर की ओर मण्ड की साईड को छोड़ते हुए बाई और के मकान व रमजानी व अलादिया मास्टर के मकान को लेते हुए फाजल के नाडे पर अ. रहीम उर्फ दुल्या के मकान पर पहुंचकर पश्चिम की ओर घुमकर बाई और के मकानों को लेते हुए मोरियो की गुवाड़ी को लेते हुए आरम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
27	630	टोडा रोड पुलिया से मण्ड के पास याह्या मास्टर से बाई और के सभी मकानों को लेते हुए टोडा रोड पर खाल की ओर चलकर रेल्वे फाटक पर 57 मील पहुंचकर पूर्व उत्तर की ओर घुमकर बाई साईड में धाणा के बालाजी पर पहुंचेगी धाणा के बालाजी को छोड़ते हुए पुलिया से पश्चिम की ओर घुमकर बाई साईड के मकानात को लेते हुए बदरी की चक्की को लेते हुए रैगरों की धर्मशाला से पश्चिम से बाई और जगन्नाथ रैगर (बाबू) से बाई और के मकानों को लेते हुए वाहीद (बिरयानी) के मकान पर पहुंचकर नाडे पर पहुंचकर नाडे से बाई और के मकानों को लेते हुए अलादिया पुलिस वाले के मकानात को लेते हुए मण्ड के रास्ते पर बाई और के मकानातों को लेते हुए सलीम मास्टर नागोरी के मकान को लेते हुए मण्ड के पास टोडा रोड पुलिया पर पहुंचेगी।
28	700	गनी शाह के मकान से हथाई की ओर चलकर बाई और के मकानात को लेते हुए उमराव मंजिल पर पहुंचकर पूर्व की ओर चलकर हाटडियों में सरकारी नल से चलकर रईस मास्टर के मकान को लेते हुए उत्तर की ओर धुमकर मुख्त्यार चपरासी के मकान को लेते हुए बाई साईड के मकानात को लेते हुए अ. रसीद पीईटी के मकान के सामने से उत्तर की तरफ बाई और के मकानात को लेते हुए गोविन्द ब्राह्मण के सामने बाई साईड के मकानात को लेते हुए दशरथ मुंशी के पुराने मकान को लेते हुए हरिराम ब्राह्मण के मकान से सिन्धीयों की हवेली को लेते हुए सफेद सड़क पर पहुंचकर प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
29	760	धाणा के बालाजी से काना खाती की आरामशीन पर पहुंचकर पश्चिम की ओर चलते हुए बाई साईड में नजीर मास्टर के मकान को लेते हुए दाई और के मकान को कलीम शाह के मकान पर पहुंचकर नागोरियों की मस्जिद को छोड़ते हुए बाई साईड में नशरुद्दीन नागोरी के मकान को लेते हुए पाटोटी की ढाल पर चढ़कर मोती झाझड़ी की हवेली को लेते हुए गुनाडियों की हवेली पर पहुंचकर दक्षिण की ओर घुमकर देवजी की ढाल पर पहुंचकर

		अयश्यूब के मकान से पूर्व की ओर घूमकर असरार मास्टर के मकान से उत्तर की ओर घूमकर तव्वाब चपरासी के मकान पर पहुंचकर वहां से पूर्व की ओर घूमकर बाई और के मकाना लेते हुए अकबर मिस्त्री व गजेन्द्र पूर्व पार्षद के मकान की साईड को लेते हुए कोने पर लालाराम की हवेली पर पहुंचकर रेगरों की धर्मशाला की साईड छोड़कर शुबराती के मकान से सुलतान नागोरी के मकान से इब्राहीम राकस्या के प्लाट से पूर्व की तरफ खाल के रास्ते पर मन्नान नागोरी के मकान को लेते हुए सरकारी शौचालय व टाउन नं. 5 स्कूल को लेते हुए प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
30	665	घाणा के बालाजी से पूर्व की ओर चलकर नसिया जैन समाज को लेते हुए पूर्वी सीमा पर पहुंचकर उत्तर दिशा में रामपाल के मकान को लेते हुए आगे चलकर तालाब की पाल पाल चलकर घनश्याम गोला के सामने से घूमकर बाई और के मकानात को लेते हुए भैरू जी से लक्ष्मीनाथ की ओर चलकर छीपों की ढाल पर पहुंचकर पाटोदीयों की ढाल पर बाई और के मकानात लेते हुए नागोरियों की मस्जिद को लेते हुए खातियों के मोहल्ले व गुर्जरों के मोहल्ले को लेते हुए प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
31	630	प्रधान जी निवास से जयपुर रोड पर चलकर छीतर जी की दुकान छोड़कर दक्षिण में चलकर रथुवीर पारीक के मकान के पीछे से सीधे गोरवपथ पर पहुंचकर वार्ड नं. 16 की सीमा सीमा चलकर पुराने पावर हाउस को लेते हुए प्रारम्भ स्थान पर पहुंचेगी।
32	615	छीतर जी की दुकान से जयपुर रोड चलकर सावरकर सर्किल पर पहुंचकर अस्पताल रोड चलकर इन्द्रा कॉलोनी में दक्षिण की ओर मुड़कर आरोग्य अस्पताल के सामने होकर राई साईड के मकान को लेते हुए हनुमान दरोगा के मकान से आगे से रोड पर पश्चिम की ओर सत्यनारायण स्वामी के मकान पर पहुंचकर यहां से दक्षिण में मुड़कर सीधे चलकर मंदिर पर पहुंचेगी एवं रोड रोड चलकर कब्रिस्तान जवाहर नगर की साईड की प्रथम लाईन को लेते हुए पश्चिम की ओर रोड रोड चलकर रामलाल खाती के मकान पहुंचेगी व उसमें मकान को लेते हुए दक्षिण की ओर चलकर रोड रोड गोरवपथ पर वार्ड नं. 30 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भ के स्थान पर पहुंचेगी।
33	715	लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से पश्चिम की ओर चलकर दाई और के मकानात को लेते हुए गुनाडियों की हवेली पर पहुंचकर हवेली को छोड़ते हुए गुनाडियों की हवेली से रसीद पीईटी के मकान के पीछे की ओर पतली गली में होकर दशरथ मुंशी के पुराने मकान को छोड़ते हुए बारागांव मो. को लेते हुए रामनारायण जी विजयवर्गीय

		के मकान पर पहुच सफेद सड़क पर पहुचकर पूर्व दिशा में चारभुजा मंदिर पहुचकर मंदिर से पुरानी तहसील दरवाजे में घुसकर दाई तरफ के मकानों को लेते हुए घनश्याम गोवला के सामने हीरा माली की और दक्षिण दिशा में गली में घुसकर सीधे दाई और के मकानात लेते हुए भैरू जी चबुतरे पर पहुचकर रामनारायण पुलिस वाले बिहारीलाल जी मुछो वालो के मकान को लेते हुए प्रारम्भ के स्थान पर पहुचेगी।
34	660	आरोग्य अस्पताल से पूर्व की ओर अस्पताल रोड पर चलकर घनश्याम सिन्धी की दुकान पर पहुचकर यहां से दक्षिण में मुड़कर दाई और के मकान लेते हुए दीनदयाल जी पारीक के मकान पर पहुचकर वहां से पश्चिम में चलकर भागचन्द जी रीडर व रामबाबू छीपा के साईड के मकान को लेते हुए यहां से पूर्व में घुमकर टीकम जी जैन के मकान को लेते हुए सीधे चिन्ताहरण बालाजी रोड पर पहुचकर चिन्ताहरण बालाजी साईड के मकानात लेते हुए गौरवपथ चलकर जवाहर नगर कॉलोनी को लेते हुए वार्ड नं. 31 की सीमा सीमा चलकर प्रारम्भ के स्थान पर पहुचेगी।
35	730	घनश्याम सिन्धी की दुकान से वार्ड नं. 32 की सीमा सीमा चलकर बाई साईड के मकानात को लेते हुए चिन्ताहरण बालाजी से सीधे दक्षिण में चलकर वार्ड नं. 17, 18 व 20 की सीमा सीमा चलकर सम्पूर्ण बम्ब तालाब क्षेत्र को लेते हुए तालाब की पाल से घाटी रोड पर चढ़कर रामपाल माली के मकान पर पहुचकर पूर्व की रोड रोड चलकर गणेश रैगर के मकान को लेते हुए घाटी रोड पर चढ़कर रामपाल के मकान पर पहुचकर मकान छोड जैन नसीया के पीछे से आगे उत्तर की चलकर सीधे गुर्जरों की ढाणी को शामिल करते हुए पुराने रेल्वे ट्रैक पर पहुचकर ट्रैक ट्रैक दक्षिण की ओर बाई और के समस्त मकानात छात्रावास, अस्पताल को लेते हुए घाटी रोड तिराहे पर पहुचकर श्योजी रैगर इन्द्रा कॉलोनी के मकान को लेते हुए अस्पताल रोड पर पश्चिम की ओर चलकर प्रारम्भिक स्थान पर पहुचेगी।

अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका मालपुरा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।